




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 884 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 10, 2002/आश्विन 18, 1924

No. 884 ]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2002/ASVINA 18, 1924

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुम्बई, 29 अगस्त, 2002

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की उप-विधियों में संशोधन

(29 अगस्त, 2002 को आयोजित अपनी बैठक में ओटीसीआई के बोर्ड द्वारा और 7 मई, 2002 के अपने परिपत्र सं. एमएमडी/पॉलिमी/परि. 10/2002 के जरिए सेबी द्वारा यथा अनुमोदित)

का.आ. 1077(अ).—उप-विधि के अध्याय II में खंड 2.01 (ख) के बाद नया खंड 2.01 (ग) और अध्याय XIII में खंड 01 (ग) एवं 02 के बाद नया खंड 01 (घ) एवं 02 (क) जोड़कर संशोधन :

अध्याय II का खंड 2.01 (ग)

निवेशक तथा सूचीबद्ध कंपनियां

अध्याय XIII का खंड 01 (घ) : सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा नियत अवधि के भीतर शेयर अंतरित करने में विफलता

जहां कोई सूचीबद्ध कंपनी अंतरण अनुरोध के प्रस्तुतीकरण की तारीख से एक महीने के भीतर शेयरों को अंतरित करने में विफल रहती है या जहां कंपनी अंतरिती को एक महीने के भीतर अंतरण पर कोई वैध आपत्ति सूचित नहीं करती है, व्यथित पक्ष इस मामले को जांच करने और विलम्ब की अवधि के दौरान हुई अवसर हानि के लिए क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत करने के लिए विवाचन समिति के पास आवेदन कर सकता है।

अध्याय XIII का खंड 02 (क) : प्रतिभूतियों के अंतरण में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की राशि

अंतरण अनुरोध के प्रस्तुतीकरण की तारीख से एक महीने के भीतर प्रतिभूतियों के अंतरण में विलम्ब के लिए और आपत्ति जापन प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में विवाचन समिति का निर्णय अंतिम तथा संबंधित सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

[ सं. 2468/02/एल एंड एस/103 ]

कृते ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

प्रक्षेप मुद्रांत, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**OTC EXCHANGE OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th August, 2002

**AMENDMENTS TO THE BYE-LAWS OF OTC EXCHANGE OF INDIA**

(As approved by the Board of OTCEI at its meeting held on August 29, 2002 and by SEBI vide its circular letter No. SMD/Policy/Cir-10/2002 dated May 7, 2002)

**S.O. 1077(E).**—Amendments by incorporating new clauses 2.01(c) after clause 2.01(b) in Chapter II and 01(d) and 02(a) after clauses 01(c) & 02 in Chapter XIII of the Bye-laws

**Clause 2.01(c) of Chapter II**

Investors and Listed Companies

**Clause 01(d) of Chapter XIII : Failure by a listed company to transfer shares within the stipulated period**

Where a listed company fails to transfer the shares within one month from the date of lodgement of transfer request or where the company fails to communicate to the transferee any valid objection to the transfer within one month, the aggrieved party may apply to the Arbitration Committee to inquire into and award compensation for the opportunity losses caused during the period of delay.

**Clause 02(a) of Chapter XIII : Amount of compensation for delay in transfer of securities**

The decision of the Arbitration Committee will be final and binding on the parties concerned in respect of the amount of compensation awarded for delay in transfer of securities and delay in furnishing the objection memo within one month from the date of lodgement of transfer request

[No. 2468/02/L & S/1034]

For OTC Exchange of India

PRAVEEN MOHNOT, Managing Director and CEO